

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा।

पत्रांक.....11493/20

आरा, दिनांक 24/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा-आरा।

विषय:- सुरेन्द्र कुमार राय के नाम से जमा FD का सत्यापन करने के संबंध में ।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सुरेन्द्र कुमार राय पता- मिशन रोड पकड़ी, आरा जिला-भोजपुर जो NEW Maintenance Policy 2018 (MR 3054) पैकेज संख्या- MR-N/21-22/Ara/21 तक पथ में डाला गया जमा-पुष्टि (F.D) आपके शाखा से निर्गत किया गया है जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के नाम से प्रतिज्ञित है जिसका सत्यापन कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सूचित किया जाए जो नीचे निम्न प्रकार है।

क्रमांक	FD A/C No	निर्गत करने की तिथि	समाप्ति की तिथि	राशि
1.	12040300027881	15.06.2021	15.06.2022	2,50,000.00
2.	12040300028122	03.08.2021	03.08.2022	3,80,000.00
		Total		6,30,000.00

Dear Sir,
We herewith confirm that
above mentioned FDRs No
12040300027881 and
12040300028122 were pledged
in favour of E E RWD Works
Division Ara.

Regards

W. S. Manoj

विश्वासभाजन

24/08/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।





बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SURENDRA KUMAR RAY

MISSION ROAD PAKRI
ARRAH
802301
INDIA

संस्थापक खाता E / FD A/c No 12040300027881
संस्थापक सूचना E / FD Advice No FDR1506215933
ग्राहक आईडी नं. / Customer ID No 010502509
संबंधित खाता / Linked Operations a/c 120404000000155
शाखा का नाम / Branch Name ARRAH(SHAKR)

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RRD(RES)
नामांकन / Nomination N
नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AJVPR9012K
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि धारक अल्पवय है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	बैलेंस / Balance	काल / Tenure	मaturity Date	मaturity Value
250000	15-06-2021	5.40	12 Months 0 Days	15-06-2022	263776

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस को अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर परिवर्तन में वार्षिक है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज
3. यदि अल्पवय अनुदेश न दिए हो तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण टैब तारीख पर उपलब्ध ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
4. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण टैब तारीख पर उपलब्ध ब्याज दरों के अनुसार इसकी अवधि के लिए किया जाएगा।
5. एनो 15 और 15 एच शिफ्ट निगमों खातों के लिए है।
6. निगमों स्थिति दो बार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक मिन 15 और 15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा मौत पर कर कटौती की जाती है।
7. एनो एच कंडम वॉरिअन्स नगरीको (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।
8. परिपक्वता आहरण क्लॉज
9. 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (नियमों) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके बाद 1% से 1% कम।
10. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (नियमों) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके बाद 1% से 1% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।
11. State of Interest is as per prevailing rate of interest.
12. Automatic Renewal Clause
13. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
14. For Deposits issued for a period of below 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
15. Form 15G and 15H is applicable to resident accounts only.
16. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals in each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
17. Form 15H can be accepted only from Senior citizens (age of 60 years or above).
18. Premature Withdrawal Clause
19. Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than bank rate on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
20. Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than bank rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Pledged to RWD Works Division A-80, PUGA NO. M.R. - 11

Bank of Baroda



SURI NDRA KUMAR RAY
MISSION ROAD PAKRI
ARRAH
802301
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12040300028122
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0308215146
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 058562559
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 120404000000155
शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 002
पैन नंबर / PAN No. AJVPR9012K
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अल्पवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
380000	03-08-2021	5.75	60 Months 0 Days	03-08-2026	505539

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर वार्षिक है।
1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. 15 दिनों की अवधि के लिए।
2. Automatic Renewal Clause
a) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
b) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15G और 15H एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्ति का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया फॉर्म 15G/15H एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा तब तक ब्याज कटौती की जाएगी।
4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15H एच केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वीकार किया जाएगा।
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. परिपक्वता मूल्य काटें।
6. Premature Withdrawal Clause
a) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
b) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note: this is a system generated advice and does not require any signature



Pledge to - E E ROAD WORKS DIVISION ARR



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

91
Smt

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SURENDRA KUMAR RAY

MISSION ROAD PAKRI
ARRAH
802301
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12040300027881

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1506215933

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 058562559

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12040400000155

शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AJVPR9012K
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
250000	15-06-2021	5.40	12 Months 0 Days	15-06-2022	263776

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Smt